

15.02.2022

To,

The Manager
The BSE Limited
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street
Mumbai-400001

Subject: Publication of Un-audited Financial Results for quarter and nine months ended 31st December, 2021

Stock Code: 517360

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith the copy of the un-audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2021 published in Financial Express (English) and in Hari Bhoomi (Hindi) on 15th February, 2022.

Kindly take the above documents on your records.

Thanking You,

Yours Faithfully

For SBEC Systems (India) Limited

Priyanka Negi

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

CIN No.: L74210DL1987PLC029979

Regd. Office: 1400, Modi Tower, 98 Nehru Place, New Delhi - 110019, Tel.: 42504878, 42504842, Fax: 26293822

E-mail: sbecsystems@rediffmail.com

(₹ in Lakh)

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD. CIN: L65929DL1991PLC043182

Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048. Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812, Web: www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfnance@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2021

Unaudited Nine months ended **PARTICULARS** Ouarter ended 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Total income from operation (net) 0.28 8.61 24.61 (4.56)15.78 Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax (6.01)(1.08)0.03 Net Profit/(Loss) for the period after tax (1.08) 0.03 15.78 (6.01)(after Extraordinary items) **Equity Share Capital** 550.04 550.04 550.04 550.04 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous) Earning Per Share (before extraordinary items) (Face Value Rs. 10/- each) - Basic & Diluted (0.11)(0.02)0.00 0.29 Earning Per Share (after extraordinary items) (0.11)(0.02)0.00 0.29 (Face Value Rs. 10/- each) - Basic & Diluted Note:

O.A. NO. 1506 / 2019

ALLAHABAD BANK

MR. ASHISH PUNDIR

2. Mrs. GARIMA PUNDIR

Signatory

MR. ASHISH PUNDIR & ORS..

Meerut-250002 M-09897661118

Meerut-250002 M-09897661118

Near Baghpat Byepass Road, Meerut.

Near Baghpat Byepass Road, Meerut.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months Financial Results as on 31.12.202' filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of the Quarterly/Nine months Financial Results are available on the Stock Exchange i.e www.bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in.

Chairman & Managing Director Place: New Delhi Date: 14.02.2022 DIN: 00529230

Form No. 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007 (Area of Jurisdiction- Part of Uttar Pradesh)

Summons for filing Reply & Appearance by Publication

Summons to Defendant Under Section 19 (3), of the Recovery of Debts

due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12

O. A. No. 1506 / 2019

VERSUS

S/o Shri D.S. Pundir R/o B-20, Jaswant Sugar Mill Colony, Maliyana,

2rd Address: House No 158-3BHK (Ground Floor) Green Wood City,

W/o Mr. Ashish Pundir R/o B-20, Jaswant Sugar Mill Colony, Maliyana

2[™] Address: House No 158-3BHK (Ground Floor) Green Wood City,

3. M/s GODWIN CONSTRUCTION PVT. LTD. through it's Authorised

Registered Office: 38, C.M.C. Chippi Tank, Meerut (U.P.) 250001

the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book

form in Two sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or

through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal,

after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/ duly

authorized agent after publication of the summons, and thereafter to

appear before the Tribunal on 13.05.2022 at 10.30 A.M. failing which the

application shall be heard and decided in your absence.

and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

Meerut Cantonment Branch, 55, The Mall, Meerut (U.P.)

BHAGAWATI GAS LIMITED

Sri Satva Sai Trust Complex

Prashanthi Nilayam, Puttaparthi.

That Sri/Smt/M/s Mr. Thota Venkata Raghavendra Rao (hereinafter referred to as "the borrower") had availed the following loans/credit facilities

from our Branch from time to time. The said loan/credit facilities are duly secured by way of mortgage of the assets more specifically described

hereunder, by virtue of the relevant documents executed by the mortgagor in our favour. Since, the borrower and Smt. B Sreedevi, the guarantor

has failed to discharge their liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on 30/11/2011. The

demand notice dated 07-12-2021 had also been issued to the borrower and the guarantor by Registered Post Acknowledgment due to their last

known address available in the Bank record, which was returned back undelivered. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13(2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of Rs.41,29,851.41/- (Rupees Forty One lakhs, Twenty Nine thousand, Eight

Hundred, Fifty One rupee and Forty One paisa only) with accrued and up-to-date interest and other expenses, within sixty days from the date

of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, you, and the public in general are

hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned hereunder in any manner whatsoever, without our prior consent. This is

without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force. Your attention is invited to provisions of sub-

1. Mr. Thota Venkata Raghavendra Rao, measuring 720 Sq. Feet, undivided share of 13 Sq. Yards out of Rs.41,29,851.41/- 07-12-2027

S/o. Thota Venkata Krishna Rao, D. No. 88.88 Sq. yards together with the Flat bearing in "Sri Sai Giresh (Rupees Forty One

519, Saraswathi Vihar, Chakkapur Post, Residency-I" Samadhi Road, 2nd cross in Flat No. 3 on First lakhs, Twenty Nine

Gurgaon, Haryana – 122002, floor, Flat area 720 Sq. ft., including Common area situated at thousand, Eight 2. Smt. B Sreedevi, W/o. B Ganesh Puttaparthy covered by Ward No. 3, Door No. 540 of Hundred, Fifty One

Kumar, D. No. 16, IV Floor, Sri Sai Eswari Puttaparthy Panchayat Board area and Bukkapatnam Sub- rupee and Forty One

Residency, Opp. Telephone Exchange, District and in Hindupur Registration District. Sy. No. - 285-1, paisa only) with

SBI Road, Puttaparthy, Anantapur District, Ward No. 3, Bounded by: East: Other Site, West: Other Site, accrued & up-to-date

North: 12 feet Road, South: Sir Ganga Apartments.

Name of the Title holder: Mr. Thota Venkata Raghavendra Rao. | expenses and costs.

Description of the Immovable Properties

Andhra Pradesh 515134

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE

SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL

ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

Amt. Due as per

Demand Notice

interest & other

Authorised Officer, Canara Bank

30/11/201

Rate of

plus 2%

penal

interest

Place: Ludhiana

Dated: 14.02.2022

Name of Borrower/

Co-Borrower/Mortgagor

(Formerly known as Bhagawati Gases Limited) Registered Office: Banwas, Khetri Nagar - 333504, Distt.-Jhunihunu, Rajasthan Corporate Office: S-492/A, Greater Kailash-I, New Delhi-110048

Canara Bank

section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Guarantor / Mortgagor & Account No.

All that piece and parcel of the construction R.C.C. Roofing Fla

Friendly

Name and Address of Borrower /

Andhra Pradesh - 515134.

Account No.: 31327710000197

Date: 15.02.2022 Place: Anantapur, A.P.

Kanwarpal Singh Kochhai

Date: 02.02.2022

APPLICANT

.DEFENDANTS

(CO-BORROWER)

(BORROWER)

E-Mail ID: bhagwatigases@gmail.com; CIN: U24111RJ1974PLC005789 Website: www.bglgroup.in Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021 (₹ in Lakhs, except per share data)

	Particulars	. 0	Quarter Ended	d	Nine mon	Year Ended	
SI. No.		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021 (Audited)
NO.		(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	
1.	Total Income from operations	4.02	91.59		91.61	:=	- 2000 CO
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-37.38	201.42	-29.59	145.04	-89.59	-131.9
3.	Net profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-37.38	201.42	-29.59	145.04	-89.59	-131.9
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-37.38	201.42	-29,59	145.04	-89.59	-175.29
5.	Total comprehensive income for the period (Comprising profitloss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	-37.38	201.42	-29,59	145.04	-89.59	-164.71
6.	Paid up Equity Share Capital (face value Rs. 10/- each)	1674.25	1674.25	1674.25	1674.25	1674.25	1674.25
7.	Reserve excluding revaluation reserves						
8.	Earnings per share (EPS): 1. Basic: 2. Diluted:	-0.22	1.2	-0.18	-0.87	-0.54	-0.98

Place: New Delhi

Date: 14.02.2022

 The above extract of the detailed format of unaudited financial results for the guarter and nine months ended 31st december 2021 filled with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations And Disclosure Requirements) regulations 2015. The full format of Unaudited financial results are available on the website of the company i.e. www.bglgroup.in. For Bhagawati Gas Limited

SBEC SYSTEMS (INDIA) LTD.

Rakesh Samrat Bhardwaj (Managing Director) DIN: 00029757

BRAITHWAITE & CO. LIMITED

A Registrar,

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

(A Govt. of India Undertaking) 5, Hide Road, Kolkata - 700 043

1) Tender No. BCL/PUR/FAB/FLAP DOO(MS)/Rate Contract/2022 Sealed Tenders are invited in Two bid system for Engagement of Contractor for Preparation, Fabrication & Assembly of Flap Door of BOXN type wagons (IS: 2062E250/ IS:5986) in the workshop of BCL on Rate Contract basis as per tender conditions.

2)Tender No. BCL/PUR/FAB/FLAP DOOR(SS)/Rate Contract/ 2022 Sealed Tenders are invited in Two bid system for Engagement of Contractor for Preparation, Fabrication & Assembly of Flap Door of BOXN type wagons (IRS: M44) in the workshop of BCL on Rate Contract basis as per tender conditions.

3)Tender No. BCL/PUR/FAB/BODY SIDE(MS)/Rate Contract/ 2022 Sealed Tenders are invited in Two bid system for Engagement of Contractor for Preparation, Fabrication & Assembly of Body Side of BOXN type wagons (IS: 2062E250/IS:5986) in the workshop of BCL on Rate Contract basis as per tender conditions.

4) Tender No. BCL/PUR/FAB/BODY SIDE(SS & CRF)/Rate Contract/ 2022 Sealed Tenders are invited in Two bid system for Engagement of Contractor for Preparation, Fabrication & Assembly of Body Side of BOXN type wagons (IRS: M44) in the workshop of BCL on Rate Contract basis as per tender conditions.

Sealed Tenders are invited in Two bid system for Engagement of Contractor for Preparation, Fabrication & Assembly of Body End of BOXN type wagons (IRS: M44) in the workshop of BCL on Rate Contract basis as per tender conditions.

Last date of submission of Tenders no. (1) to (5) is 30

5)Tender No. BCL/PUR/FAB/BODY END(SS & CRF)/Rate Contract/2022

days from the date of publication (both days inclusive). Interested parties may download the documents from our website www.braithwaiteindia.com. Offer can be submitted as per tender conditions against payment of Rs.1000/- (non refundable) against each tender by Bank Draft / Pay Order in favour of "Braithwaite & Co. Ltd", payable at Kolkata, towards cost of tender document. All TCNs & Corrigendum etc. will be notified in our website www.braithwaiteindia.com only.

Sr. Executive (Purchase)

Quarter

Ended

30" Sep

2021

Unaudited Unaudited Unaudited

69.17

69.17

52.80

456.90

1.16

1.16

1.16

3.042.42 18.522.12

2021

1.44

1.44

1.32

1.32

456.90

0.03

0.03

0.03

0.03

31" Dec

2020

203.67

203.67

154.84

154.53

456.90

3.39

3.39

3.39

3.39

CIN:L74210DL1987PLC029979 REGD.OFFICE: 1400, MODI TOWER, 98, NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019 Tel.: +91-11-42504842 E-Mail: sbecsystems@rediffmail.com, Website: www.sbecsystems.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

	(Rs. in Lacs)									
		STANDALONE			С	ED				
Sr. No.	Particulars	Quarter	Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended			
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021			
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited			
1	Total Income	71.88	5.47	198.45	71.88	5.47	198.45			
2	Net Profit / (Loss) for the period						I			
	(before Tax, Exceptional and/or						I			
	Extraordinary items)	33.03	0.54	123.74	33.03	0.54	123.74			
3	Net Profit / (Loss) for the period						I			
	before tax(after Exceptional and/or						I			
	Extraordinary items and share of						I			
	Profit/Loss of Associates)	33.03	0.54	110.16	33.03	0.54	110.16			
4	Net Profit/(Loss) for the period after						I			
	tax (after exceptional and/or						I			
	Extraordinary items)	27.87	0.54	92.97	27.87	0.54	92.97			
5	Total Comprehensive Income for the						I			
	period [Comprising Profit/(Loss) for the						I			
	period (after tax) and Other						I			
	Comprehensive Income(after tax)]	27.87	0.54	92.97	27.87	0.54	92.97			
6	Equity Share Capital	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00			
7	Reserve excluding Revaluation						I			
	Reserves as per balance sheet						I			
	of previous year	-	-	-	-	-	- 			
8	Earnings Per Share (EPS)						I			
	(for continuing and						I			
	discontinued operations)									
	a Basic	0.28	0.01	0.93	0.28	0.01	0.93			
_	b Diluted	0.28	0.01	0.93	0.28	0.01	0.93			

The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 o the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.sbecsystems.com.

The above Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of

under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (As amendded)

For SBEC SYSTEMS (INDIA) LTD. Jagdish Chander Chawla DIN: 05316202

EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED

Ended

31" Mar.

2021

576.97

576.97

429.33

431.92

456.90

1,623.60

9.40

9.40

9.40

31" Dec

2021

341.29

(2.05)

(2.05)

(1.61)

(1.61)

456.90

(0.04)

(0.04)

(0.04)

(0.04)

Place: New Delhi

Date: 14.02.2022

(FORMERLY EMERGENT GLOBAL EDU & SERVICES LIMITED) CIN L80902DL1983PLC209722 Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi - 110 001;

Phones: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914; Email: cs@somanigroup.com; website:www.eesl.in

Extract of Statement of Standalone & Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 31" December 2021

Year to date for

period ended

Unaudited Unaudited

31" Dec

2021

182.17

182.17

137.69

137.69

456.90

3.01

3.01

3.01

3.01

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 31st December, 2021 filled with the Stock Exchange under Regulation 33 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The Full format of the Standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange

31" Dec

2020

7.379.88 40.125.22 51.916.48

518.01

518.01

389.34

388.39

456.90

8.52

8.52

8.52

8.52

NOTES:

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

YORK EXPORTS LIMITED

REGD. OFFICE: D-6, Diwan Shree Apartments, 30, Ferozeshah Road, NEW DELHI Website: www.yorkexports.in CIN: L74899DL1983PLC015416

Extract of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2021

Sr. No.	Particulars		Standalone		Consolidated			
		Quarter ended 31.12.2021 (unaudited)	Nine Months ended 31.12.2021 (unaudited)	Quarter ended 31.12.2020 (unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (unaudited)	Nine Months ended 31.12.2021 (unaudited)	Quarter ended 31.12.2020 (unaudited)	
1	Total Income from Operations	633.14	3004.38	944.65	633.14	3004.38	944.65	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	25.61	119.06	20.79	25.61	119.06	20.79	
3	Net Profit/(Loss)for the period (before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	25.61	119.06	20.79	32.90	198.19	20.71	
4	Net Profit/(Loss)for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	17.61	101.06	19.59	24.90	180.19	19.51	
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	17.61	101.06	19.59	24.90	180.19	19.51	
6	Equity Share Capital	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)		-					
8	Earnings Per equity Share (Basic & Diluted) (Face Value of Rs. 10/- per share)	0.53	3.01	0.59	0.74	5.36	0.59	

The above results are an extract of the detailed format of quarterly/ Nine Months Financial Results filed with the BSE Ltd. Under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/Nine Months Financial Results are available on the Stock Exchange website at (www.bseindia.com)as well as on the Company's Website at www.yorkexports.in.

2 The Standalone & Consolidated Financial Results have been prepared in accordance with principles of Indian Accounting Standards (Ind. AS) as specified by ICAI and section 133 of the Companies Act, 2013.

3 The financial results for the quarter and Nine Months ended 31.12.2021 are in compliance with Indian Accounting Standard (IND AS) notified by the MCA.

For and on behalf of the Board of Directors For York Exports Ltd.

Date of

Demand Notice possession

Amount as per

demand notice

Present

outstanding

nterest thereon.

(Aayush Dhawan) Whole time Director DIN: 00277485

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK SECOND FLOOR, GMTT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA (U.P.) 201301 POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)]

Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Uijivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules. 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder; calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice

The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is

Description of the

Immovable property

hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount of for the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Mr. Laxman Singh S/o All that piece and parcel of land 20.07.2021 09.02.2022 Sarvjeet Singh, H. No. D-1008, andbuilding, of the Freehold	Rs. 36,60,129/- Present
Gali No. 23/A, Bhajanpura, Residential Plot No. D-1008, land area admeasuring 75 Sq. Garhi Mendu, North East Delhi, Yards D-Rlock Gali No. 23/A out of Khasra No. 564, situated	outstanding Rs. 39.84.675/-
Delhi - 110053, Also at: Prop. in the Village GhondaGujran Khadar, Abadi of Bhajanpura, M/s L.R. Trading Company, C-Illaga Shahdara, New Delhi - Delhi. Boundaries: East: Gali 10 204/6, Sudamapuri, Gamri	& interest thereon.
Extension, Delhi, Delhi-110053 Feet Wide, West: Others Property, North: Part of Plot, South: F	Part of Plot
and Co-Borrowers/ Mortgagors Mrs. Mamta Singh W/o Laxman Singh, H. No. D-100	8, Gali No. 23/A,

Bhajanpura, Garhi Mendu, North East Delhi, Delhi - 110053, In Loan Account No. 2211210130000014. Mr. Afroz Khan S/o Ayub Khan, All that piece and parcel of land 23.07.2021 09.02.2022 Rs. 7,58,249/-House No. E- 202/2, 3rd Floor, and building, of the Freehold Present

Gali No. 7, Subhash Vihar, North Residential of Built Up 3rd Floor without roof rights on Ghonda, Delhi -110053, Also at: Property No. E-200/2, area admeasuring 64 1/2 Sq. Yards Rs. 7,57,260/- as Chauhan Paneer Bhandar, 223, out of Khasra No. 461, situatedd at Village Ghonda Gujran on 07.02.2022 & Gali No. 2, Bhim Gali, Kartar Khadar, in the Abadi of Subhash Vihar, North Ghonda, interest thereon. Nagar, Pusta -3, Delhi -110053,

and Also at: H. No.: E-43/2, Illaga Shahdara- Delhi, which is bounded as under: East: Property of Others, Street No. 7, Subhash Vihar, West: Property of Others, North: Gali 10 Feet Wide, South: Property of Others. North Ghonda, North- East Delhi, Delhi-110053 and Co-Borrowers/Mortgagors Mrs. Salma W/o Afroz Khan, use No. E-202/2, 3rd Floor, Gali No. 7, Subhash Vihar, North Ghonda, Delhi -110053, Also at: H. No.: E-43/2, Street No. Subhash Vihar, North Ghonda, North-East Delhi, Delhi - 110053. In Loan Account No. 225479600000003. Mr. Yuvraj Sharma S/o Pramod All that piece and parcel of land 06.07.2021 09.02.2022 Rs. 23,81,691/-Kumar Sharma, H. No. D-180, and building, of the Plot No. 67,

Office, NIT Faridabad, and District Faridabad - Haryana, which is bounded as as on 08.02.2022 Also at: Prop. M/s Meenakshi follows: Boundaries: East: Remaining Portion of Plot/ Part & interest thereon. Enterprises, Plot No. 7, Scrap of Plot Mr. Jwala Sharma's Property, West: Gali 11 Feet Cement Brick Road. Market, Jeevan Nagar - Part 11, North: Plot No. 68/ Mr. Deepchand Kohri's Property, South: Gali 22 Feet Sohna Road, Faridabad, Cement Brick Road. Haryana - 121004 and Also at: Prop. M/s Meenakshi Enterprises, 18/1, Mathura Road, Faridabad, Haryana -

Nagar, Dabua Colony, Near Post Khasra No. 18/5, Waka Mauza Saran, Tehsil Ballabgarh Rs. 23,87,079/-

Ward No. 7, Feroze Gandhi Western Portion, area admeasuring 85 Sq. Yards, Situated

Dasna, Bazigaran- 1, Near Residential Plot No. 2, area admeasuring 50 Sq. Yards i.e.

Hafiz Salmani, H. No.: 341, and building, of the Freehold

121004 and Co-Borrowers/Mortgagors Mrs. Meenakshi Sharma W/o Yuvraj Sharma, H. No. D-180, Ward No. 7 Feroze Gandhi Nagar, Dabua Colony, Near Post Office, NIT Faridabad, Faridabad, Haryana- 121081. In Loan Account No. 2347210180000003 Mr. Asif Ali Salmani S/o Abdul All that piece and parcel of land 12.08.2021 09.02.2022 Rs. 10,24,405/-

Nagar Panchayat, Dasna, 41.8 Sq. Meters, comprised in Khasra No. 349 Min, situated Rs. 11,17,121/-

Ghaziabad, Uttar Pradesh-at Christian Nagar, Village Mavai, Pargana Loni, Tehsil & as on 07.02.2022 201302, Also at: Prop. M/s Out District Ghaziabad - Uttar Pradesh, which is bounded as & interest thereon. N Looks Saloon, B-217, Lohiya Nagar, Near Mother Dairy, follows: Boundaries: East: Road 14 Feet Wide, West: Khet of Ran Singh Ghaziabad, Uttar Pradesh-Other's Property, North: Plot No. 3 / Other's Property, South: Remaining 201001 and Co-Borrowers/Portion of Plot No. 2 / Other's Property. Mortgagors Mrs. Asma Parvin W/o Asif Ali Salmani, H. No.: 341, Dasna, Bazigaran-1, Near Nagar Panchayat, Dasna, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201302, Mr. Noushad Ali S/o Abdul Hafiz Salmani, H. No.: 341, Dasna

Bazigaran- 1, Near Nagar Panchayat, Dasna, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201302, Also at: B-217, Lohiya Nagar, Near Mother Dairy, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001 and Mr. Mohd. Imran S/o Mainuddin, H. No. F 252, Sanjay Nagar, Sector 23, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Also at: H. No. 99, Kaila-7, Kavi Nagar, Ghaziabad. Uttar Pradesh-201001. In Loan Account No. 2203210050000006.

Mr. Dinesh Kumar S/o Vikram All that piece and parcel of land 09.07.2021 09.02.2022 Rs. 5,88,366/-Singh, Habibpur Nawada, Nearland building, of Plot area Present Mandir, Roorkee, Haridwar, admeasuring 990 Sq. feet or 92 Sq. Meters, belonging to Haridwar, Khasra No. 479M, situated in Village BhagwanpurJadeed Rs. 5,94,543/- as Uttarakhand- 247661 and Co-Must, Pargana & Tehsil Bhagwanpur, District Haridwar- on 06.02.2022 & Mr. Must, Pargana & Tehsil Bhagwanpur, District Haridwar- on 06.02.2022 & Interest thereon Rekha W/o Dinesh Kumar, Uttarakhand. Boundaries: East: Plot of Seller, West: Way interest thereon. Habibpur Nawada, Near Mandir, 18 Ft. Wide, North : Plot of Seller, South : Plot of Seller

Roorkee, Haridwar, Hallumajra, Haridwar, Uttarakhand- 247661, Also at: 116/4, Village Habibpur Nawada Hallumaira, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand- 247661, In Loan Account No. 2228210120000006. Rs. 6,36,472/-

Mr. Naseeb Singh S/o Jaypal All that piece and parcel of land 04.10.2021 09.02.2022 Singh, Gali No. 03, West and building, of one Plot, Present Shivpuram, Paniyala Road, measuring in East 45 Feet in North 17 Feet in South 17 outstanding eet, total area admeasuring 765 Sq. feet or 71.09 Sq. Rs. 6,98,656/- as Uttarakhand- 247667, Also at: Meters, pertaining to Khasra No. 45, situated at Village on 06.02.2022 &

Also at: Jahbredi Khurd, Jhabrera, Haridwar, Uttarakhand -247665. In Loan Account No. 222876100000003.

Jahbredi Khurd, Jhabrera, Meters, pertaining to Khasra No. 45, situated at Village on 00.02.2022
Haridwar, Uttarakhand - 247665 Rahimpur, Pargana- Bhagwanpur, Tehsil- Roorkee and interest thereon. and Co-Borrowers/ Mortgagors District- Haridwar-Uttarakhand. Boundaries: East: Plot of Smt. Goldi, West: Mrs. Sanyogita W/o Naseeb Plot of Seller, North: Way 12 Feet Wide, South: Property of Mitthanlal Sharma. Singh, Gali No. 03, West Shivpuram, Paniyala Road. Roorkee, Raheempur, Haridwar, Uttarakhand- 247667

Mr. Ajay Kumar S/o Satish All that piece and parcel of Land 08.06.2021 09.02.2022 Rs. 4,64,721/-Kumar, New Mandi, Mohallaland Building bearing Nagar Chawani Jhabrera, Roorkee, Panchayat Number 1731, situated at Mohalla Chhavni, Haridwar, Uttarakhand-247665 Town Jhabrera, Pargana Manglaur, Tehsil Roorkee, Distt. Rs. 5,28,191/- as and Co-Borrowers/ Mortgagors Handwar admeasuring 830 Sq. Ft. (77.137 Sq. Mtr), on 06.02.2022 & Mr. Satish Kumar S/o Jagbeer Boundaries: East: House of Bablu, West: Street 5ft wide, interest thereon. Singh and Mrs. Sushma Devi North: Other's house, South: House of Bablu & Surendra.

W/o Satish Kumar both at New Mandi, Mohalla Chawani Jhabrera, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand- 247665.

In Loan Account No. 222876100000007. Mr. Pawan Kumar S/o Radhe All that piece and parcel of land 14.07.2021 10.02.2022 Present outstanding

Shyam, H. No. 17, Choudhary and building, of the property area

Colony, Vivek Nagar, Near admeasuring 60.00 Sq. Yards, situated at Plot No. 17, Sanganer Airport, Sanganer, Scheme Choudhary Colony, Sanganer, District Jaipur -Rs. 13,31,683/-Jaipur, Rajasthan – 302029 and Rajasthan. Boundaries: East: Others Plot, West: Road/9 as on 06.02.2022

Co-Borrowers/ Mortgagors Mr. Rajasthan. Boundaries: East: Others Plot, West: Road/9 as on 06.02.2022 Shyam Lal S/o Radhe Shyam Wide, North : Plot No 17-A, South : Plot No 16.

& interest thereon. and Mrs. Geeta Devi W/o Radhe Shyam both at H. No. 17, Choudhary Colony, Vivek Nagar, Near Sanganer Airport, Sanganer, Jaipur, Rajasthan - 302029, In Loan Account No. 2338210170000013.

Rs. 6,40,846/-Present

Mrs. Shabeena Khatoon W/o All that piece and parcel of land 15.07.2021 10.02.2022 Rahmat Ali Kureshi, H. No. 113, and building, of Plot No. 14, area

Shri Ram Colony, Ram Singh admeasuring 33.83 Sq. Yards, situated at Scheme outstanding Pura, Sanganer, Jaipur, Rehman Nagar, Ram Singh Pura, Sanganer, District Jaipur Rs. 6,74,853/- as Rajasthan - 302029 Also at: M/s -Rajasthan. Boundaries: East: Plot No. 15, West: Plot No. on 06.02.2022 & interest thereon

Nagar, Ram Singh Pura. 13m, North: Other Property, South: Public Road/20'. Sanganer, Jaipur, Rajasthan- 302029 and Co-Borrowers/Mortgagors Mr. Rehmat Ali Kureshi S/o Ahmad Ali,

H. No. 14, Rehman Nagar, Ram Singh Pura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan - 302029, Also at: H. No. E- 54, Shr Ram Colony, Ram Singh Pura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan - 302029. In Loan Account No. 23387970000015. Mr. Hanuman Das Swami S/o All that piece and parcel of land 15.07.2021 10.02.2022 Rs. 5,02,685/-Present

Fateram Das Swami, Plot No. and building, of the Plot No. 24,L 24, Jotrawala, Near Guru area admeasuring 94. 57 Sq. Yards, situated at Raj Vihar, outstanding Maharaj Mandir, Sanganer, Village Jothrawala, Sanganer, Jaipur - Rajasthan. Rs. 5,53,856/- as Co-Borrowers/Mortgagors Mr. Boundaries: East: Other Land, West: Plot No. 25, North: interest thereon

Das Swami, Plot No. 24, Jotrawala, Near Guru Maharaj Mandir, Sanganer, Jaipur, Rajasthan - 302029, In Loan Account No. 233879700000012.

Ramdas Swami S/o Fateram Public Road, South : Public Road.

Date: 14.02.2022 Place: Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Haridwar, Roorkee & Jaipur Authorised Officer

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi Date: 14.02.2022

Particulars

Profit/Loss for the period before Tax

Profit (+)/Loss(-) for the Period after Tax

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and

Other Equity excluding Revaluation Reserves, as per

(after Exceptional and/or Extraordinary Items)

(after Exceptional and/or Extraordinary Items)

Total Comprehensive Income for the period

other Comprehensive Income (after tax)]

Balance Sheet of Previous Accounting Year

Earning Per Share (Before Extraordinary Items)

Earning Per Share (After Extraordinary Items)

Website www.bseindia.com and on the Company's website www.eesl.in.

Paid Up Equity Share Capital

(Not Annualised)

(Not Annualised)

(A) Basic

(A) Basic

(B) Diluted

(B) Diluted

(Face Value Rs.10/- Per Share)

Total Revenue

Profit/Loss for the period

DIN: 03048392

R.C. KHANDURI (DIRECTOR)

any manner whatsoever.

0.28

Directors in their respective meetings held on February 14,2022. The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed

(Rs. in Lacs Except Number of Shares & EPS

Year to date for

period ended

31" Dec 31" Dec

2020

Unaudited Unaudited Audited

7,369.81 40,115.72 51,903.84

507.96

507.96

380.75

379.80

456.90

8.33

8.33

8.33

8.33

By order of the Board

2021

171.60

171.60

128.80

456.90

2.82

2.82

2.82

2.82

FOR EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED

Ended

31" Mar.

2021

563.41

563.41

417.99

420.58

456.90

1,495.82

9.15

9.15

9.15

9.15

Sd/-

Consolidated

31" Dec

2020

198.1

198.1

149.68

149.37

456.90

3.28

3.28

3.28

3.28

3.039.03 18.518.90

Quarter

Ended

30" Sep

2021

65.65

65.65

49.84

49.84

456.90

1.09

1.09

1.09

1.09

Audited Unaudited Unaudited Unaudited

By Order of Board

खबर संक्षेप

बच्चों-गर्भवती महिलाओं का होगा टीकाकरण

गाजियाबाद। मिशन इंद्रधनष तीन चरणों में चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उप्र की निदेशक अपर्णा



उपाध्याय ने प्रदेश के समस्त डीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजकर सघन मिशन

अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ डा. भवतोष शंखधर ने बताया अभियान के अंतर्गत 7 बीमारियों से प्रतिरक्षण के लिए दो वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती का टीकाकरण किया जाता है।

केडीबी में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित

गाजियाबाद। कविनगर स्थित केडीबी पब्लिक स्कल में की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए ऑनलाइन



आयोजित किया गया। जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कल" बेबी शो

और टैलेंट हंट " नत्यगायन , श्लोक मंत्र , बेकार वस्तुओं का पुनः उपयोग . (बेस्ट ऑयट और वेस्ट) शो एंड टेल शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न शहरों के बच्चों ने भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा प्रस्तुत की।

20 दिन में सुलझाया जाएगा पार्क का विवाद

फरीदाबाद। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल्पना चावला सिटी पार्क विवाद 20 दिन में सुलझाने का



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन डागर से उन्होंने कहा कि वे सीएम से इस बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे।

आश्वासन दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर कुछ लोगों ने बल्लभगढ़ के एकमात्र कल्पना चावला सिटी पार्क पर शासन-प्रशासन की मदद से कब्जा

देवीचरण ननि वाटर सप्लाई यनियन के प्रधान फरीदाबाद। निन कर्मचारी संघ हरियाणा की इकाई निन वाटर

सप्लाई कर्मचारी यनियन के देवीचरण को सर्व सम्मति से प्रधान बने। रामरतन



कोषाध्यक्ष चुना उपप्रधान तथा महिपाल कुंडू, पूर्ण, मुकेश शर्मा को उपप्रधान, हरेंद्र व वेद प्रकाश को ऑडिटर,

शशि प्रकाश, राम प्रकाश, सह सचिव, मुकेश त्यागी व नंदिकशोर को प्रचार सचिव, राकेश को प्रेस सचिव, महिपाल, विक्रम को मुख्य सलाहकार व जैनेंद्र को सलाहकार व तलाराम. विक्रम आदि को कार्यकारिणी का मेंबर चना गया।

वीर जवानों का सम्मान समारोह आयोजित

फरीदाबाद। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने आजादी के अमृत महोत्सव



आयोजन किया। जिसमें सेना में सेवारत व सेवानिवृत सभी सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा की याद से की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर एनआईटी क्षेत्र के विधायक नीरज शर्मा उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सच्ची शांति सिर्फ राजयोग द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।

पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को २ मिनट का मौन रखकर किया याद



हरिभूमि न्यूज 🕪 गुरुग्राम/फरीदाबाद

पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। क्षेत्र के समाजसेवी राजेश पटेल ने कहा कि वर्ष 2019 की 14 फरवरी को पलवामा में जवानों की गाडी पर आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया था। इस घटना में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि बाद में देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर इस बलिदान का बदला लिया। उन्होंने कहा कि पुरा देश इन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजिल अर्पित करता है। यदि पड़ोसी देश किसी भी प्रकार की हरकत करता है तो भारत उसका मंह तोड जवाब देने में सक्षम है।

आईएमए व ट्रैफिक पुलिस ने बीके चौक पर दी श्रद्धाजील



तथा टैफिक पुलिस विभाग द्वारा बीके चौक पर पुलवाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया। आईएमए हरियाण की अध्यक्ष डा. पुनीता हसीजा, आईएमए हरियाणा के प्रवक्ता डा. सुरेश अरोड़ा ने कहा कि पुलवामा की घटना को भुलाया नहीं जा सकता है। यह घटना हृदय विदारक थी। आज सैनिकों की वजह से हम भारतवासी चैन की नींद सोते है। श्रद्धांजिल देने वालों में पार्षद मनोज नासवा रवि नागपाल, पं. विनोद शर्मा, सन्नी क्रमार, मोन्ट्र कुमार नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, जगजीत कौर पन्नू, संजीव ग्रोवर, विरेन्द्र सिंह, सन्दरलाल चुघ, संजय भाटिया वन डी, तेजवंत बिट्ट, अशोक अरोड़ा, हरिकिशन वर्मा, ट्रैफिक पुलिस विभौग से एसआई कुंवरपाल, एसआई जयभगवान, एसआई देवेन्द्र, रामकिशन, अजयपाल, भोपाल, मेघश्याम, अश्वनी,एसआई रतन सिंह, अशोक जंघालिया, महेन्द्र चौटाला सहित अन्य लोग शमिल थे।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने ७१ लाख से बनने वाली सड़क का किया उद्घाटन

फ्रीदाबाद की सभी सड़कें 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगी: गुर्जर

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व विधायक नरेंद्र गप्ता ने ओल्ड फरीदाबाद वार्ड नंबर 29 शिव मंदिर रोड से सरपंच डेयरी तक 71 लाख की लागत से बनने वाली सडक का शिलान्यास किया। 16 फुट की इस रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल भी लगाई जाएगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद बहुत पुराना और ऐतिहासिक शहर है। यहां पर बिजली, पानी, सीवर और सड़क़ें इन सब की समस्या दशकों से थी। अब हमारी सरकार इन सभी समस्याओं का समाधान कर रही है। पानी और सीवर की नई लाइन डाली गई है और अब फरीदाबाद में ज्यादा से ज्यादा सडक़े बनाई जा रही हैं। हमने जड से ही बिजली, पानी, सीवर और सडक़ सभी समस्याओं का समाधान लगभग कर ही दिया है और आज आप फरीदाबाद की किसी भी सडक़ पर जाएंगे.

जीएमडीए पेयजल की

आपूर्ति में करेगा 50 से

७० एमएलडी की वृद्धि

शहरवासियों को पेयजल की

किल्लत का सामना न करना

पर्ड, इसके लिए जीएमडीए ने

पेयजल की सप्लाई 50 से 70

एमएलडी तक बढाने का निर्णय

लिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में

प्रतिदिन ४८० एमएलडी पेयजल

की आपूर्ति की जा रही है। शहर

के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले

लोगों को पेयजल आपूर्ति

उपलब्ध कराने के लिए

आवासीय सैक्टरों में पेयजल की

लाईनें भी डाली जा रही हैं

जिसके कारण पेयजल की मांग

50 एमएलडी पेयजल की

आपर्ति बढाने की जीएमडीए ने

सोची है। मौसम में भी बदलाव

आ चका है जिसके कारण

आगामी मार्च माह में पानी की

मांग और अधिक बढ़ जाएगी।

जानकारों का कहना है कि

सैक्टर 58 से सैक्टर 115 तक

पानी की मास्टर लाईनें डालने

का काम जारी है। हालांकि सभी

सैक्टरों में यह कार्य अभी पुरा

नहीं हो पाएगा। लेकिन, सैक्टर

58 से 67 तक पेयजल की

लाईनें डालने का काम पूरा हो

जाएगा और उन क्षेत्रों को

पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध

इसी को ध्यान में रखते हुए

और अधिक बढ़ जाएगी।

गर्मियों

केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि बिजली. पानी. सीवर और सडक सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है।

रोड के दोनों तरफ 🛚 इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगाई जाएगी

तरक्की के लिए हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी



आपको सब जगह काम चलता हआ नजर आ जाएगा। जनता को अभी तो थोडी परेशानी उठानी पड रही है लेकिन जल्द ही उनको फरीदाबाद में अच्छी सडकें मिलेंगे। अगले डेढ़ से 2 महीनें में फरीदाबाद की तमाम सडकें

हरिमूमि न्यूज 🕪 गुरुग्राम

शहर के सबसे प्राचीनतम एव

व्यस्तम सदर बाजार को अतिक्रमण

मुक्त एवं स्वच्छ बाजार बनाने की

दिशा में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा

कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त

आयुक्त संजीव सिंगला के निर्देश

पर इनफोर्समैंट टीमें बाजार में

अतिक्रमण को हटा रही हैं।

इनफोर्समैंट टीमों ने सदर बाजार का

दौरा किया। टीम को आता देख

अतिक्रमण करने वालों में अफरा-

बाहर रखे सामान आदि को समेटने

में लग गए। टीम ने अतिक्रमण करने

वालों को चेतावनी दी कि वे

अतिक्रमण करके आमजन के लिए

परेशानी पैदा ना करें। अतिक्रमण के

कारण बाजार में आवाजाही में

दिक्कत आती है तथा लोगों को

क्र. बोर्डं/निगम/ कार्य सूचना निविदा सं. प्राधि. का नाम

🕲 हरियाणा सरकार

पुनः आमंत्रित – बोपीएसएमवो खानपुर कलां के प्रशासनिक ब्लॉक में अग्निशमक उपकरणों का प्रावधान

और विभिन्न भवनों जैसे टीचिंग ब्लॉक्स गेस्ट हाउर आर ।वाचन्त मधना जस टाएग व्याक्स गस्ट हाउस, इलैक्ट्रिक सब स्टेशन कैम्पस स्कूल, हॉस्टल में मौजूद अग्निशामक उपकरणों की रिफिलिंग हेतु निविदा।

भगत फूल विर्णिएसएमवी खानपुर कर्ला में विद्यार्थी गतिविधि सिंह महिला केन्द्र में कम्प्यूटर नेटवर्किंग (एलएएन) प्रणाली के

धक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryar

वे आनन-फानन में दुकानों के

तफरी मच गई।

बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मख्यमंत्री मनोहर लाल की दुरदर्शिता में सभी कामों को विधिवत तरीके से किया जा रहा है और अभी जो बजट पास हुआ है। उस बजट को लेकर सभी वर्ग

सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान **इनफोर्समेंट टीमें कर रही कार्रवाई**

परेशानियों का सामना करना पडता

है। निन अतिक्रमण को किसी भी

सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा तथा

जनहित को ध्यान में रखते हुए भी

अतिक्रमण सही नहीं है। संयुक्त

आयुक्त के अनुसार सदर बाजार

सबसे व्यस्तम बाजार है। यहां पर

ग्राहकों की आवाजाही अन्य बाजारों

की तुलना में अधिक रहती है। बाजार

में अतिक्रमण के कारण लोगों को

परेशानी होती है। सरक्षा की दृष्टि से

खुलने की तिथि गशि र्हएमडी बंद होने की तिथि (लगभग)

लाख

संवाद विज्ञा. सं.-13/2022/100/7576/I/88/7 दि. 14.02.22

(समय)

28.02.2022

28.02.2022

के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। देश की तरक्की के लिए हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।

शहर के साथ-साथ पूरे देश का विकास कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पुलवामा में हमारे जो भी सैनिक शहीद हए हैं उनके लिए आज पुरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। आज हम सुरक्षित हैं तो सैनिकों की वजह से सैनिकों के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, पार्षद विनोद भाटी, डा.सुरेंद्र दत्ता, पार्षद छत्रपाल, प्रवेश मेहता, संज् चपराना, विकास शक्ला, राकेश, नंदराम शर्मा.बलराज नगर. विनोद अग्रवाल, अरुण शर्मा, हरी किशन चौहान, महेश चंद रिटायर्ड जेडटीओ आदि गणमान्य व्यक्ति मौजुद रहे।

भी अतिक्रमण खतरनाक है। पर्व में

बाजार में हुई आगजनी की घटनाओं

में अतिक्रमण के कारण राहत एवं

बचाव दल को घटना स्थल पर

पहंचने में बाधा

सुरक्षा

लिहाज से बाजार

का अतिक्रमण

मुक्त होना बहुत

नोडल अधिकारी

noosmy@omai.com

noo.iiamatkymeadh

ही जरूरी है।

निविदा स्चना

बोर्ड /निगम /पाधि

हुई है।

मेयर आजाद

निगम पार्षदों और जनता से मिल् रही खराब निर्माण की शिकायतें

वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर मधु आजाद ने चीफ इंजीनियर ठाकुरलाल शर्मा को निर्देश दिए कि कमेटी द्वारा अभी तक अलॉट किए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता जांच का निरीक्षण एवं सैंपल कलेक्शन किया जाएगा। वे स्वयं कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ मौका निरीक्षण करने के लिए जाएंगी। मेयर ने कहा कि विभिन्न निगम पार्षदों एवं आम जनता की तरफ से कुछ विकास कार्यों में खराब निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने बारे शिकायतें मिल रही हैं।

इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए वे स्वयं मौका निरीक्षण एवं सैंपल कलेक्शन संबंधी कार्रवाई करेंगी तथा अगर किसी एजेंसी द्वारा गुणवत्ता से समझौता किया गया होगा, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की



जाएगी। मेयर ने कहा कि विकास कार्यों में गणवत्ता के साथ समझौता किसी भी सरत में सहन नहीं किया जाएगा तथा सभी विकास कार्य निर्धारित समयसीमा में ही पूरे किए जाने चाहिएं। वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में 10 विकास कार्यों के एस्टीमेटों को प्रशासनिक स्वीकृति

एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड CIN:L74210DL1987PLC029979

पंजी. कार्यालय: 1400, मोदी टावर 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 Tel.: +91-11-42504842

E -Mail: sbecsystems@rediffmail.com, Website: www.sbecsystems.com

31 दिसम्बर 2021 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेत अअंकेक्षित

	v-				K0	(रु	. लाख में)
क्र.		र	टैंडअलो	न		समेकित	
सं .	विवरण	समाप्त '		समाप्त नौ माह	समाप्त	2000-020 20 02. A (0.000-020 000)	समाप्त नौ माह
		31.12.2021 अअंकेक्षित	31.12.2020 अअंकेक्षित	31.12.2021 अअंकेक्षित	31.12.2021 अअंकेक्षित	31.12.2020 अअंकेक्षित	31.12.2021 अअंकेक्षित
1	कुल आय	71.88	5.47	198.45	71.88	5.47	198.45
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	1500,00-00		0.0000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000	5,500.00	
	(कर, असाधारण और/अथवा						
	असामान्य मदों से पूर्व)	33.03	0.54	123.74	33.03	0.54	123.74
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध						
	लाभ/(हानि)(असाधारण और/अथवा						
	असामान्य मदों और एसोसिएट्स के	65-000-000		1,750 1,000	25000000000	696 BASSO	
	लाभ/हानि के शेयर के बाद)	33.03	0.54	110.16	33.03	0.54	110.16
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)						
	(असाधारण और/अथवा असामान्य मदों						
	के बाद)	27.87	0.54	92.97	27.87	0.54	92.97
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय						
	[अवधि हेतु निहित						
	लाभ/(हानि) (कर के बाद)						
	और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	27.87	0.54	92.97	27.87	0.54	92.97
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1	पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट के						
	अनुसार पुनर्मूल्यांकन						
	रिजर्व को छोड़कर रिजर्व	-	-	**	-		
8	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)						
	(निरंतर् और अनिरंतर						
	प्रचालनों हेतु)	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
	ए. बेसिक	0.28	0.01	0.93	0.28	0.01	0.93
	बी हायल्यटेड	0.28	0.01	0.93	0.28	0.01	0.93

- उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये तैमाहिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तैमाहिक वित्तीय परिणामों का पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.sbecsystems.com पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और अनुशंसा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई तथा 14 फरवरी 2022 को आयोजित उनकी सम्बन्धित बैठकों में निदेशक मण्डल द्वारा अनमोदित किये गये।

वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानदंड) नियम (संशोधित अनुसार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनुसार भारतीय लेखा मानक (Ind-AS) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

कृते एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लि

जगदीश चन्द्र चावल निदेशक

डीआईएन : 05316202

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 14.02.2022

Corp. Off: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurgaon (Haryana)-122001, Ph.0124-2719000, Fax: 0124-2719100 CIN: L26912DL1991PLC045449, Website: www.sainikfinance.com, Email: info@sainik.org, legal.secretarial@sainikmining.com Extract of Statement of Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended

- The above is an extract of the detailed format of guartery Financial Result for the guarter ended 31 December 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the guarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and also on the Company's website www.sainikfinance.com
- of the Company at their respective meeting held on 14 February 2022. The auditors have carried out Limited Review of the financial results, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For Sainik Finance & Industries Limited

करा दी जाएगी। निविदा सूचना हरियाणा सरकार खुलने की तिथि राशि/ईएमडी नोहल अधिकारी बंद होने की तिथि (समय) सं. प्राधि. का नाम (लगभग) रु.में सम्पर्क विवरण/ई-मेल वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 66 केवी डी/सी बरवाला-शहजादपुर लाइन के 10.02.2022 6.84 0172-2583789 विभिन्न टावर्स स्थलों पर मिप्पा और मिसिंग नम्बरों का प्रावधान। 21.02.2022 लाख pro@hvpn.org.in णचवीपीएनएल 220 केवी सब स्टेशन मसूदपुर का (1×100 एमवीए) 220/132 केवी + (1×100 एमवीए) 12.02.2022 5.89 0172-2583789 www.hvpn.org.i 220×33 केवीए ट्रांसफार्मर से (2×100 एमवीए) 220/132 केवी + (2×100 एमवीए) 23.02.2022 लाख pro@hvpn.org.in 220/33 केवी ट्रांसफॉर्मर में संवर्धन। 2017-18 (प्लानिंग कोड 2ए 2660*) आईएनओ 220 केवी एसएफ-6 ब्रैकर, 220/132/33 एनसीटी. रेडियेटर एफटीएन. एनआईपीईएस टैंक अग्निशामक क्यबिक लेल एफडीएन और 33 केवी वीसीबी फाउंडेशन के अनुसार साइड कंडीशन निर्माण की अपेक्षा के अनुरूप पुनः प्रबंधन। 132 केवी सब स्टेशन, एचवीपीएनएल, सांगा पर 132 केवी एस/सी निसिंग-सांगा लाइन 10.02.2022 0172-2583789 1.97 www.hvpn.org.ii पर इनकमिंग बे उपकरण का पावधान। 17 02 2022 लाख 132 केवी सब स्टेशन, एचवीपीएनएल, अमीन पर 132 केवी एस/सी अमीन-किरमिच लाइन एचवीपीएनएल 10.02.2022 2.21 www.hvpn.ora.ir 0172-2583789 पर इनकमिंग बे उपकरण का प्रावधान। 17.02.2022 लाख pro@hvpn.org.in मॉनिटरिंग और विशलेषण प्रबंधन-डेश बोर्ड के विकास के लिए डेटा एक्युजीशन, 11 02 2022 10 www.hvpn.org.in 0172-2583789 इंटीग्रेशन प्लेटफार्म। 22.03.2022 लाख pro@hvpn.org.in अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off: 129 Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035, Ph.: 011-28315036 Fax: 011-28315044 on 31 December 2021

SI. No.	Particulars	3 months ended (Unaudited)	3 months ended (Unaudited)	Correspond- ing 3 months ended in the previous year (Unaudited)	9 months ended (Unaudited)	Correspond- ing 9 months ended in the previous year (Unaudited)	Year to date figures for current year ended (Audited)
	2	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
1	Total Income from operations	581.86	555.67	582.53	1,691.29	2,053.59	2,078.63
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	24.53	(2.27)	110.75	101.22	916.38	(156.84)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	24.53	(2.27)	110.75	101.22	916.38	(156.84)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	18.36	(3.02)	91.83	74.43	675.02	(95.52)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	18.36	(3.02)	91.83	74.43	675.02	(93.55)
6	Equity Share Capital (face value of the share : Rs.10 each)	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year		_		_	1741	3,235.69
8	Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted:	0.17 0.17	(0.03) (0.03)	0.84 0.84	0.68 0.68	6.20 6.20	(0.88) (0.88)

The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors

By order of the Board

Rudra Sen Sindhu Place: Rohtak (Harvana) Director (DIN-00006999) Date: 14 February, 2022